

MJMC-03/MJ-03/MJ-103

December – Examination 2023

MJMC/MJ Examination

Mass Communication Research Methodology

(जनसंचार शोध प्रविधि)

Paper : MJMC-03/MJ-03/MJ-103

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :- The question paper is divided into three Sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

निर्देश :- यह प्रश्न-पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section-A

8×2=16

(Very Short Answer Type Questions)

Note :- Answer all questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to 30 words. Each question carries 2 marks.

MJMC-03/MJ-03/MJ-103/7 (1)

TC-176 Turn Over

खण्ड—अ

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. (i) What is Mass Communication Research ?
जनसंचार शोध क्या है ?
- (ii) What is the meaning of objectivity in research ?
शोध की विषयनिष्ठता से क्या तात्पर्य है ?
- (iii) What is the meaning of Sample ?
नमूना किसे कहते हैं ?
- (iv) What is the correlation coefficient ?
सहसम्बन्ध गुणांक किसे कहते हैं ?
- (v) Define experimental research.
प्रयोगात्मक शोध को परिभाषित कीजिए।
- (vi) What is development ?
विकास से क्या तात्पर्य है ?
- (vii) What is pictorial questionnaire ?
चित्रमय प्रश्नावली क्या है ?

MJMC-03/MJ-03/MJ-103/7 (2)

TC-176

(viii) What do you understand by Interview ?

साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं ?

Section-B

4×8=32

(Short Answer Type Questions)

Note :- Answer any *four* questions. Each answer should not exceed **200** words. Each question carries 08 marks.

खण्ड—ब

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम **200** शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 08 अंक का है।

2. Differentiate between negative and positive correlation.

धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसम्बन्ध में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

3. What do you understand by scientific enquiry ?

वैज्ञानिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं ?

4. How many types does the research have ?

शोध कितने प्रकार का होता है ?

5. Write about the problems faced by researchers while deciding about research process.

शोध प्रक्रिया के निर्धारण में आने वाली विभिन्न समस्याओं के विषय में बताइए।

6. What are the key characteristics of a good Hypothesis ?

एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषताएँ क्या होती हैं ?

7. What is data ? What is the meaning of analysing it ?

सामग्री किसे कहते हैं ? इसके विश्लेषण से क्या अभिप्राय है ?

8. Differentiate between probability and non-probability sampling.

सम्भाव्यता एवं असम्भाव्यता निदर्शन के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।

9. What is Mean ? Calculate the mean of given data :

x	f
2	10
3	8
4	12
5	15
6	21
7	10
8	7
9	3

समान्तर माध्य किसे कहते हैं ? नीचे दिए गए आँकड़ों के समान्तर माध्य की गणना कीजिए :

x	f
2	10
3	8
4	12
5	15
6	21
7	10
8	7
9	3

Section-C **2×16=32**

(Long Answer Type Questions)

Note :- Answer any *two* questions. You have to delimit your each answer maximum up to **500** words. Each question carries 16 marks.

खण्ड—स

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश :- किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम **500** शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है।

10. Describe the objectives of Mass Communication Research in detail.

जनसंचार शोध के क्या उद्देश्य होते हैं ? विस्तार से वर्णन कीजिए।

11. “Giving and taking interview is an art.” Elaborate.

“साक्षात्कार लेना और देना एक कला है।” समझाइए।

12. Is nonprobability sampling more prejudiced than probability sampling? Give reasons.

क्या असम्भाव्यता निदर्शन विधि, सम्भाव्यता निदर्शन विधि से अधिक पक्षपातपूर्ण है ? कारण स्पष्ट कीजिए।

13. Calculate the Karl Pearson's coefficient of skewness :

Height (In inch)	No. of Persons
45—50	2
50—55	10
55—60	21
60—65	55
65—70	40
70—75	32
75—80	5

कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की गणना कीजिए :

ऊँचाई (इंच में)	व्यक्तियों की संख्या
45—50	2
50—55	10
55—60	21
60—65	55
65—70	40
70—75	32
75—80	5